

भारतीय मानक ब्यूरो
पूर्वी क्षेत्रीय प्रयोगशाला - कोलकाता

हमारा संदर्भ : पू.क्षे.प्र./प्र.मा.यो/ओएसएल -5164724

20 दिसम्बर 2019

विषय : मे. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी प्रोडक्ट्स सेफ्टि टेस्टिंग लैबोरेटरी, सी एस आइ आर-सी आइ एम एफ आर की मान्यता का अनुदान

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन अनुसार यह सुचित किया जाता है की मे. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी प्रोडक्ट्स सेफ्टि टेस्टिंग लैबोरेटरी, सी एस आइ आर-सी आइ एम एफ आर, बरवा रोड, धनबाद 826015, झारखंड की मान्यता को भारतीय मानक ब्यूरो की प्रयोगशाला मान्यता योजना 2018 के अंतर्गत दिनांक 19 दिसम्बर 2019 से तीन वर्षों के लिए अनुदान दिया गया है।

प्रयोगशाला का मान्यता क्षेत्र अनुबंध-1 में दिया गया है।

द्वैपायन भद्र
वैज्ञानिक-डी, प्र. अधि. (प्र. मा. यो.)

प्रतिलिपि :

- आईटीएस- भा. मा. ब्यूरो द्वारा सभी संबन्धित के सूचना के लिए

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
EROL-KOLKATA

Our Ref: EROL/LRS/ OSL-5164724

20 Dec 2019

Subject: Grant of Recognition to M/s Electronics and IT Products Safety Testing Laboratory; CSIR-CIMFR

As approved by the Competent Authority, the recognition of **M/s Electronics and IT Products Safety Testing Laboratory; CSIR-CIMFR, Barwa Road, Dhanbad-826015, Jharkhand** has been granted for three years w.e.f. **19 Dec 2019** under BIS Laboratory Recognition Scheme - 2018.

Scope for which the Laboratory has been recognized is enclosed at Annex-I.

Dwaipayan Bhadra
Sc-D, OIC (LRS)

CC:

- ITSD, BIS HQ – With a request to upload this circular on BIS intranet for information of all concerned

अनुबंध-1 /Annex-1

OSL CODE: **5164724**
 Name: Electronics and IT Products Safety Testing
 Laboratory; CSIR-CIMFR
 Address: Barwa Road, Dhanbad-826015
 Jharkhand

Contact: Dr. G. M. Prasad, Sr. Principal Scientist/ QM
 Mob. 9430149978

Telephone:- 0326 2296045
 E-mail:- prasadgm@cimfr.nic.in

Sl. No.	IS Code	IS Title	Testing Charges (In Rs.) (Excl. GST) (Valid upto to 18.12.2021)	Remarks
1.	616:2017	Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements	Electronic Games (Video)-96,000/- Plasma/LCD/LED/Television of Screen upto 40"-96,000/- Optical Disc Players with built in amplifiers of input power 200 W and above-96,000/- Amplifiers with input power 2000 W and above-96,000/- Electronic Musical Systems with input power 200 W and above-96,000/- Power Adaptors for Audio Video & Similar Electronic Equipment-73,250/-	Excluding the following test:- Laser radiation (Cl. 6.2), Light Emitting Diodes (LEDs) (Cl. 6.3), Heat resistance of insulating material (Cl. 7.2), Requirements for insulated winding wire (Cl. 8.16), Endurance test (Cl. 8.17), Printed Boards (Cl. 13.5), Terminals for external flexible cords (Cl. 15.3), MAINS supply flexible cords (Cl. 16.1), Flexible cords comprising hazardous live conductors (Cl. 16.3), Mechanical strength of picture tubes (Cl. 18.0)
2.	13252 (Part-1) : 2010	Information technology equipment - Safety: Part 1 general requirements	Laptop/Notebook/tablet-90,000/- Visual Display unit, Video monitors upto 40"-90,000/- Scanners-90,000/- Wireless Keyboard-71,900/- Telephone answering machines-80,300/- Automatic Data processing Machine-90,000/- Printer & Plotters-90,000/- Set Top Box-90,000/- Mobile Phone-73,250/- Power Adaptors for IT equipments-75,350/- Cash Register-90,000/- Point of Sale Terminal-90,000/- Copying Machine-Duplicator-90,000/- Smart Card Reader-73,700/- Mail Processing Machine / Postage machine / Franking Machine-90,000/- Passport Reader-73,700/- Power Bank for Portable Application-75,350/-	Excluding the following test:- Solid insulation (Cl. 2.10.5), Construction of printed boards (Cl. 2.10.6), Component external terminations (Cl. 2.10.7), Tests on coated printed boards and coated components (Cl. 2.10.8), Thermal cycling (Cl. 2.10.9), Test for Pollution Degree 1 env. and for insulating compound (Cl. 2.10.10), Tests for semiconductor devices and for cemented joints (Cl. 2.10.11), Enclosed and sealed parts (Cl. 2.10.12), Power supply cords (Cl. 3.2.5), Cathode ray tubes (Cl. 4.2.8), Batteries (Cl. 4.3.8), Dust, powders, liquids and gases (Cl. 4.3.10), Flammable liquids (Cl. 4.3.12), Radiation (Cl. 4.3.13)
3.	16242 (Part-1): 2014	Uninterruptible power systems (UPS): Part 1 general and safety requirements for UPS	1,00,000/- UPS/ Inverters of rating <= 5KVA.	Excluding the following test:- Components (Cl. 4.5), Battery location (Cl. 7.6)